

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी –अप्रैल 2012 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 8, 1933)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2010-2011) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चौवनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011) तथा आयोग का वर्ष 2010-2011 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह “कक्काजू”, सदस्य, शिवपुरी जिले के पिछोर क्षेत्र स्थित शासकीय भवनों एवं भूमि पर अतिक्रमण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, रायसेन जिले के बारना परियोजना की नहर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के-

- (क) रतलाम शहर के सैलाना गेट त्रिमूर्ति नगर की हाई टेंशन विद्युत लाईन हटाये जाने,
- (ख) कृषि उपज मंडी जावरा में नाले का निर्माण कराये जाने,
- (ग) वार्ड क्रमांक 29 संजय नगर में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (घ) नवा गांव लेवड फोरलेन के चौराहे पर सर्किल का निर्माण कराये जाने,
- (ड.) रतलाम शहर के हरमाला रोड झुग्गी बस्ती में ट्यूबवेल खनन कराये जाने,
- (च) ग्राम करमदी झाबुआ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने, तथा
- (छ) पावर हाउस गेट पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

2. श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मंडला जिले के —
- (क) ग्राम बम्हनी में नल जल योजना स्वीकृत कराये जाने,
  - (ख) ग्राम आमगहन पीपरटोला बालक टोला में हैंडपम्प खनन कराये जाने,
  - (ग) ग्राम खोड़ा खुदरा में नल जल योजना स्वीकृत कराये जाने,
  - (घ) ग्राम कुंटी ददरगांव में नल जल योजना स्वीकृत कराये जाने, तथा
  - (ड.) ग्राम उमरिया में नल जल योजना स्वीकृत कराये जाने,
3. श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -
- (क) ग्राम धुलेट एवं सुल्तानपुर के माध्यमक विद्यालयों का उन्नयन कराये जाने,
  - (ख) ग्राम निरला में कन्या हाई स्कूल स्वीकृत कराये जाने,
  - (ग) ग्राम राजोद की कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
  - (घ) ग्राम वणी में हीराखान तक सड़क निर्माण कराये जाने,
  - (ड.) राजगढ़ से टिमरची मार्ग का मरम्मत कराये जाने, तथा
  - (च) ग्राम पंचायत बरमंडल के कालीकराय बांध में पेयजल योजना संचालन कराये जाने,
4. श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के-
- (क) ग्राम नवागांव की भूमि क्रमांक 234 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने तथा राजस्व अधिकार प्रदान कराये जाने,
  - (ख) ग्राम ढांढर में बसे गरीबों को भू अधिकार प्रदान कराये जाने,
  - (ग) ग्राम टटिहरा में प्राथमिक शाला स्वीकृत कराये जाने,
  - (घ) ग्राम कुईकला में प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
  - (ड.) ग्राम कोरिगां के माध्यमिक शाला विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
  - (च) ग्राम पुरैनी के प्राथमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
  - (छ) ग्राम जिलहड़ी की पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने, तथा
  - (ज) ग्राम उमरा में प्राथमिक शाला खोले जाने,
5. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के-
- (क) ग्राम निम्बाखेडी में पुलिया के मध्य स्थित विद्युत पोल हटाये जाने,
  - (ख) ग्राम नाईखेडी स्थित राधाकृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने, तथा
  - (ग) ग्राम दलोदा रेल स्थित नाले पर रपटा निर्माण कराये जाने,
6. इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के-
- (क) ग्राम पिपरिया खंगार में स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
  - (ख) ग्राम पिपरिया खंगार के मुख्य मार्ग से पिपरिया तक रोड निर्माण कराये जाने,
  - (ग) ग्राम सेमरा लहरिया में हेड पंप खनन कराये जाने,
  - (घ) ग्राम खैरा में शिव मंदिर के पास पाईप लाईन बिछाये जाने, तथा
  - (ड.) ग्राम कोलुआ एवं सेमरा के बीच तालाब निर्माण कराये जाने,
- के संबंध याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

**5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)**

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं.”

**भोपाल :**

**दिनांक : 26 फरवरी, 2012**

**राजकुमार पांडे**

**प्रमुख सचिव,**

**मध्यप्रदेश विधान सभा**